

आपने अक्सर कुछ लोगो को इंग्लिश में बात करते सुना होगा जो **a** या **the** का **use** बहुत ज्यादा करते हैं। **Infact** वे अपने अधिकतर शब्दों के आगे **a** का प्रयोग करते हैं। आप तो उनमे से नहीं है न? अगर है तो अभी से अपनी इस आदत को बदलिए क्योंकि यह आपकी इंग्लिश को अच्छी बनाने की बजाय एक **boring** और **tiring** बना देती है। वैसे कुछ लोग कुछ और **words** भी **use** करते हैं जैसे **infact, actually, really** इत्यादि जिनका वाक्य से कोई सम्बन्ध नहीं होता पर यह उनके हर वाक्य में रहता हैं। ऐसे शब्दों को **crutch words** बोलते हैं जिन्हें बोलना हमें **avoid** करना चाहिए।

अब बात करते हैं **a** और **the** की। ये दोनों ही **articles** हैं और इनका प्रयोग इनके बाद आने वाले **words/ letters** के अनुसार होता हैं।

आज की **class** में हम ना केवल इनका सही जगह पर प्रयोग सीखेंगे बल्कि इनका प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए, यह भी जानेंगे। इसी के साथ जानेंगे कुछ **Quantifiers** के बारे में।

हम बोलते समय बहुत **mistakes** करते हैं। उनमें से एक है **articles (a/ an/ the)** की गलती। हम कहीं पर भी **a** या फिर **the** का **use** कर लेते हैं जो कि गलत है। आप सभी **a/ an/ the** को कहाँ **use** किया जाता है, जानते हैं। आइए जल्दी से एक **quick recap** कर लेते हैं और साथ ही जानते है कि ऐसी कौनसी **places** है जहाँ हम **articles** का **use** नहीं करते -

A/ An

A और **An indefinite articles** हैं। इन दोनों का **use** तब किया जाता है जब किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में बात की जाए, जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते हो। जब **word** की शुरुआत **vowel sound** से हो तो **an** का **use** किया जाता है और जब **word consonant sound** से शुरू हो तब **a** का **use** किया जाता है। **(याद रखें कि सिर्फ first letter देख कर a और an का use ना करें, उन्हें बोल कर देखें।)** जैसे -

A university

An apple

A boy

A cat

An elephant

A Pen

A year

An ear

An MLA (M (एम) - एक vowel sound है इसलिए an का use किया है)

A union (यू - consonant sound है)

An orange

An umbrella

A European

An honest

An hour

Usages of The -

1. जो अपनी तरह के एक हो - unique people/object - के साथ जैसे -

The sun

The earth

The moon

The president

The CEO

2. जो विशेषण पूरे एक group या जाति का बोध कराते हो जैसे -The old

The young

The rich

The poor

3. प्रसिद्ध buildings, museums और monuments के साथ जैसे -

The Taj Mahal

The Qutub Minar

The Eiffel tower

4. Superlative degrees के साथ जैसे -

The highest

The most

The lowest

The youngest

5. Ordinal numbers के साथ जैसे -

The last chapter

The first time

The second occasion

6. ऐसे देश के नाम के साथ जिनमे kingdom, states or republican नाम आता हो जैसे -

The United States

The United Kingdom

7. ऐसी countries जिनके नाम plural हो जैसे

The Netherlands

The Philippines

8. River, canals, और oceans के नाम के साथ जैसे -

The Gangas

The Nile

The Antarctic

The Pacific

9. Families के नाम के साथ जैसे -

The Ranas
The Khans
The Tatas

10. Only से पहले **The** का प्रयोग तभी किया जाता है. जब **sentence** में **only** का इस्तेमाल “एकलौता” ऐसे कहने के लिए किया गया हो जैसे -

The only sun
The only friend
The only batsmen

11. “Whole” शब्द के पहले और **“All”** इस शब्द के बाद भी **the** इस **article** का **use** किया जाता है जैसे -

All the boys are here.

ऐसी places जहाँ articles का use नहीं करते (Omission of the articles)

1) Before uncountable nouns (अगणनीय संज्ञाओं से पहले) - अगर uncountable और abstract (भाववाचक संज्ञा) nouns का use general sense में किया गया है तो उनसे पहले article का use नहीं किया जाता। जैसे

Honey is sweet. (NOT The honey is sweet.)
I love coffee. (NOT... a coffee OR the coffee)
Milk is rich in nutrients. (NOT The milk OR a milk)
She likes reading books. (NOT...the reading books OR a reading books)
Sugar is bad for your teeth.
Wisdom is better than riches.
Virtue is its own reward.

पर यदि **uncountable nouns** का **use** किसी **particular sense** में किया गया है तो उससे पहले **article** का **use** होगा जैसे -

Would you pass the sugar? (हम यहाँ एक **particular** चीज़ की बात कर रहे हैं **sugar** जो कि **table** पर रखी हुई है = **the sugar on the table**)

2) Before plural countable nouns (बहुवचन गणनीय संज्ञाओं के साथ) - जब इनका use general sense में किया जाता है तब इनके आगे articles नहीं लगाते। जैसे -

Children are the future of a nation.
Computers are useful machines.3

पर जब इनका **use** किसी **particular sense** में किया गया है तो उससे पहले **article** का **use** होगा जैसे -

Where are the children? (किसके बच्चे? - **Our children**)

3) With the names of countries (देशों के नाम से पहले) -

Japan is a developed nation. (NOT The Japan)
India is a democratic country. (NOT The India ...)
Paris is the capital of France. (NOT The Paris ...)
I have been to England. (NOT...to the England)
India is a democratic country. (NOT The India ...)

पर जब कोई **country** कुछ **states** से मिलकर बानी हो या फिर **organization** के नाम के आगे **The** का **use** करते हैं जैसे -

The United States, The United Arab Emirates, The United Nations etc.

4) Language के नाम से आगे article का प्रयोग नहीं करते जैसे -

Hindi is the national language of India.
It is not easy to learn English.
English is spoken in many parts of the world.

5) With the names of meals - meals के नाम के साथ article का प्रयोग नहीं करते जैसे -

We have lunch at midday. (NOT...the lunch)
We have dinner in the evening. (NOT...the dinner)
Breakfast is the first meal of the day. (NOT...the breakfast)

6) Proper nouns के साथ article का प्रयोग नहीं होता जैसे -

Ahana is an architect. (NOT The Ahana or a Ahana)
Arun is my friend. (NOT The Mary)
Delhi is the capital of India.

लेकिन 'the' का **use plural names** के साथ किया जाता है -

We are having dinner with the Jains.
The Sharmas are very kind.

7) School, college, university, church, bed, hospital, prison आदि के नाम से पहले articles का use नहीं होता जैसे -

His dad is still in hospital.
We learned English at school.
He is at university.

जब इनका **use building** या **object** की तरह होता है ना कि वहां पर होने वाली **normal activity** के लिए तब

The का **use इन words** के साथ होता है। जैसे -

I met her at the temple. (यहाँ पर temple का use एक building की तरह हुआ है ना कि वहां पर होने वाली regular activity के लिए)

I went to the hospital to see my friend. (यहाँ पर hospital का use एक building की तरह हुआ है ना कि वहाँ पर होने वाली regular activity के लिए जबकि His dad is still in hospital - इस sentence में वहाँ हो रही activity - treatment को दर्शाया है)

8) Years/ days/ month/ Seasons/ festivals के नाम के आगे articles नहीं लगाते जैसे -

India got freedom in 1947. (NOT...in the 1947)

I was born in 1979.

See you on Friday. (=Coming Friday)

We are leaving for the US next week. (NOT ...the next week.)

He will come here on Diwali.

We shall go there in winter.

9) कुछ words जैसे kind of, sort of, type of, variety of आदि के बाद articles का use नहीं होता -

What sort of person are you ?

Quantifiers

अब बात करते हैं कुछ ऐसे words की जिनसे nouns की मात्रा बताई जा सके। आपने लोगों को कहते सुना होगा -

We don't have many time to finish this.

There are much books on the desk.

Did you see some friends?

Would you like any tea?

ये सभी वाक्य गलत हैं। इनमें प्रयोग किया गए words (many - 1 sentence, much - 2 sentence, some/ any - 3 और 4 sentence) में गलत use किया गया है। सही वाक्य होंगे -

We don't have much time to finish this.

There are many books on the desk.

Did you see any friends?

Would you like some tea?

इससे पहले कि हम जानें कि ये क्यों गलत हैं हम जानते हैं की ये words आखिर हैं क्या और इन्हें कहते क्या हैं।

अगर आप ध्यान दे, तो ये सभी words nouns से पहले लगाए गए हैं और nouns की quantity जो कि अनिश्चित है, उसके बारे में बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को English में quantifiers कहते हैं। जैसे -

Few थोड़ा, कुछ (जिन्हें गिना जा सकता है) जैसे कुछ लड़के, कुछ बच्चे आदि। **Few boys**

Less, Little थोड़ा, कुछ (जिन्हें गिना नहीं जा सकता) जैसे थोड़ा पानी, कुछ पेट्रोल आदि। **Little water**

Some थोड़ा, कुछ (दोनों के साथ - जिन्हें गिना जा सकता है और जिन्हें गिना नहीं जा सकता) **Some boys/**

water

Any कोई, कुछ (दोनों के साथ - जिन्हें गिना जा सकता है और जिन्हें गिना नहीं जा सकता) Any boys/water

'some' का प्रयोग प्रायः सकारात्मक वाक्यों में जबकि 'any' का प्रयोग प्रायः नकारात्मक वाक्यों में होता है।

Quantifiers का प्रयोग countable (गणनीय) और uncountable (अगणनीय) दोनों ही nouns के साथ होता है -

Uncountable Nouns (अगणनीय संज्ञाओं) के साथ

much

a little/little/very little *

a bit (of)

a great deal of

a large amount of

a large quantity of

Countable Nouns (गणनीय संज्ञाओं) के साथ

many

a few/few/very few **

a number (of)

a large number of

a great number of

a majority of

Uncountable Nouns (अगणनीय संज्ञाओं) और Countable Nouns (गणनीय संज्ञाओं) दोनों के साथ

With Both

all

enough

more/most

less/least

no/none

not any

Several

some

any

a lot of

lots of

plenty of

अब हम जल्दी से यह जानते हैं कि बोलते समय हम इनमें किस तरह से गलती करते हैं -

I have few friends. (मेरे कुछ दोस्त हैं।)

यह वाक्य आपने भी बहुत बार बोला होगा और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस वाक्य से आप यह बताना चाहते हैं कि आपके कुछ दोस्त हैं। क्योंकि **few** का अर्थ कुछ होता है। पर क्या आप इसका सही **meaning** जानते हैं? आइए देखें

Few न के बराबर/ बहुत ही कम

A few कुछ

The few कुछ से थोड़ा ज्यादा मगर पूरा

तीनों ही (**few, a few, the few**) **Uncountable plural noun** या **pronoun** की विशेषता बताते हैं तथा उनकी संख्या को दर्शाते हैं और इसीलिए इनके साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया भी **Plural** होगी।

जैसे-

1. Few-

Few people have done this work. (बहुत ही कम या न के बराबर लोग यह काम कर चुके हैं)

Few students are absent today. (बहुत ही कम या न के बराबर विद्यार्थी आज अनुपस्थित हैं)

2. A few-

A few people have done this work. (कुछ लोग यह काम कर चुके हैं)

A few students are absent today. (कुछ विद्यार्थी आज अनुपस्थित हैं)

3. The few-

The few people have done this work. {कुछ (किन्तु उनमें सब) लोग यह काम कर चुके हैं}

The few students are absent today. {कुछ (किन्तु उनमें सब) विद्यार्थी आज अनुपस्थित हैं}

हम एक सबसे आसान वाक्य देखते हैं - **exams** में एक **portion** होता है - **Spot the error** (गलतियाँ बताए) का।

उसमें आपको

Very few apple are tasty.

Very few apples is tasty.

वाक्य दे कर पूछ सकते हैं कि इस वाक्य में क्या गलती है। आपको ध्यान रखना होगा कि **few** के साथ **plural noun**

और **plural verb** का ही प्रयोग होगा। **apple** और **is** का नहीं। इसलिए सही वाक्य होगा -

Very few apples are tasty.

इसी तरह little का प्रयोग भी जान लेते हैं -

Little न के बराबर/ बहुत ही कम

A little थोड़ा बहुत (न के बराबर से थोड़ा ज्यादा)

The little थोड़ा मगर पूरा

लेकिन **A little, the little, little** और **much** से शुरू होने वाले वाक्यों में **singular verb** का प्रयोग होता है जैसे-

Little money has been spent. (बहुत ही कम या न के बराबर पैसा खर्च किया जा चुका है)

A little money has been spent. (थोड़ा पैसा खर्च किया जा चुका है)

The little money has been spent. (थोड़ा मगर जितना था पूरा पैसा खर्च किया जा चुका है)

Have you spent all the little money you had? (क्या तुमने वो सारा पैसा खर्च कर दिया है जो तुम्हारे पास था?)

Did she have even a little money? (क्या उसके पास यहाँ तक की थोड़ा भी पैसा है?)

Little money has not been spent. (बहुत ही कम या न के बराबर पैसा खर्च नहीं किया जा चुका है)

A little money has not been spent. (थोड़ा पैसा खर्च नहीं किया गया है)

जल्दी से संक्षिप्त में हम कुछ **quantifiers के हिंदी में **meaning** जान लेते हैं जिनसे आप उनका प्रयोग आसानी से कर सके और उनमें गलती ना करें**

Every → हर कोई → Every person/Every book/Every boy

All → सभी, सब → All the friends/All the people/All the books

Each → प्रत्येक, हर एक → Each friend/Each book/Each boy

Both → दोनों → Both the friends/Both the books

Enough → काफी → Enough money/Enough people

Full → पूरा → Full glass

Half (1/2) → आधा → Half the glass

Quarter(1/4) → एक चौथाई → Quarter the glass

Whole → पूरा → Whole world/Whole the day

More → ज़्यादा (With Countable & Uncountable nouns – जिन्हें गिना जा सकता है व जिन्हें गिना नहीं जा सकता) → More boys/water

Less → कम (With Uncountable nouns - जिन्हें गिना नहीं जा सकता) → Less water

Many → कई (With Countable nouns - जिन्हें गिना जा सकता है) → Many boys

Much → ज़्यादा (With Uncountable nouns - जिन्हें गिना नहीं जा सकता है) → Much water

तो अब से ध्यान सखिये कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं और उसी के अनुरूप शब्दों का चयन करें।

Last में एक बात और जान लीजिए कि आज जो हमने **articles** और **quantifiers** पढ़े हैं, ये **determiners** के part हैं। कुछ **Determiners** को **adjectives** की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं।

Adjectives यानी विशेषण के बारे में हम अपनी **next class** में जानेंगे। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली **class** में।